

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

परीक्षा हेतु ड्रेस कोड सूचना
DRESS CODE NOTICE FOREXAMINATION

दि.वि.प्रा. भर्ती 2020 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड /आवश्यक निर्देश:

Important instructions / Dress Code for candidates appearing in examination for various posts under DDA Recruitment 2020

विज्ञापन संख्या 01/2020/भर्ती प्रकोष्ठ/कार्मिक-दि.वि.प्रा.

Advt. no. 01/2020/Recruitment Cell/Pers./DDA

अनुचित साधनों का प्रयोग एवं प्रतिरूपण परीक्षा प्रक्रिया में बाधक हो सकती है, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण निष्पक्ष एवं सही तरीके से परीक्षा करवाने के लिए विशेष उपाय करने का प्रयास करेगा। तदनुसार, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए सख्ती से अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित विशेष अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

Use of unfair means & impersonation poses serious threat to the Exam process and the Delhi Development Authority will undertake special measures to conduct the exam in free and fair manner and accordingly, special instructions, as listed under, are being issued for **strict compliance** of all candidates appearing in the examination.

आशा की जाती है कि अभ्यर्थी परीक्षा की गरिमा बनाए रखने में अपना सहयोग देंगे और अपात्र अभ्यर्थियों के चयन को रोकने में सहयोग करेंगे।

It is expected that the candidates will cooperate for maintaining the sanctity of the Exam and preventing selection of undeserving candidates.

- 1) **प्रतिबंधित वस्तुएँ**-पर्स, बेल्ट, वाहन की चाबी, किताबें, पैन, पेंसिल अथवा स्टेशनरी-बॉक्स, पेपर चिट, मैगजीन, इलैक्ट्रॉनिकी गैजेट (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हैंडफोन, पैन/बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलक्यूलेटर, स्टोरेज डिवाइसिज आदि), किसी भी प्रकार की घड़ी को परीक्षा लैब में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

PROHIBITED ITEMS - wallet, belt, vehicle's key(s), books, pens, pencils or stationery box paper chits, magazines, electronic gadgets (mobile phones, bluetooth devices, head phones, pen/buttonhole cameras, scanner, calculator, storage devices etc), watches of any types, are STRICTLY NOT ALLOWED in the examination lab.

अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल प्रवेश-पत्र और पहचान प्रमाण-पत्र लेकर जाने की अनुमति है।

Candidates are allowed only to carry admit card and identity proof inside the Examination Center.

परीक्षा लैब में रफ कार्य के लिए पैन/पेंसिल और कागज दिया जाएगा।

Pen/pencil and paper for rough work would be provided in the examination lab.

- 2) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में ऊपर उल्लिखित प्रतिबंधित वस्तुएँ नहीं लानी हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी वस्तुएँ लाता है, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। दि.वि.प्रा. ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए न तो कोई व्यवस्था करेगा और न ही जिम्मेदार होगा।

Candidates should not bring Bags and prohibited items as mentioned above to the examination venue. In case they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such items. The DDA shall not make any arrangement nor be responsible for the safe custody of any such item.

- 3) यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा लैब में इस प्रकार की वस्तु पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी/अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

If any such item is found in the possession of a candidate in the examination lab, his/her candidature is liable to be cancelled and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her.

- 4) अभ्यर्थी आकर्षक वस्तुएँ, आवरण युक्त, धातुवाली ऐसी वस्तुएँ जिनमें अंगूठी, ब्रेसलेट, कुंडल, नथ, चेन, हार, पेंडेन्ट, बैज, ब्राँच, हेयरपिन, हेयर-बैन्ड, पूरी बाजू वाले अथवा बड़े बटनों वाले कपड़े आदि शामिल है, न पहनें ।

Candidates should not wear charms, veil, items containing metals such as ring, bracelet, earrings, nose-pin, chains, necklace, pendants, badge, brooch, hair pin, hair band, clothes with full sleeves or big buttons, etc.

- 5) पूरी बाजू वाली कमीज अथवा टॉप्स की अनुमति नहीं है और केवल आधी बाजू वाले कपड़ों की ही अनुमति है। ऐसे जूते अथवा अन्य फुटवेयर जो पैरों की उंगलियों को ढकते हों, नहीं पहने जाने चाहिए। पैरों की उंगलियों की तरफ से खुले फुटवेयर और सैंडल अथवा चप्पलों को पहनने की अनुमति है । लंबे बालों वाले अभ्यर्थियों को अपने बालों को बाँधकर आना चाहिए ताकि उनके कान न ढके हों । सिर ढकने वाले स्कार्फ की अनुमति नहीं है ।

Full sleeved shirts or tops are not permitted and only half sleeved clothing is allowed. Shoes or other footwear which cover the toes should not be worn. Footwear should be open toe type and sandles or chappals are permitted. Candidates with long hair should tie their hair so that ears are not covered, Use of scarf to cover the head is not permitted.

- 6) अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हुए पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी को दि.वि.प्रा. में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी/अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

Candidates must also refrain from creating any obstruction during the conduct of examination. If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his/her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the DDA and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her.